

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 411]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक-एफ 1-161/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत बारसूर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्द्वारा अवधारित करता है :-

1. नगर पंचायत बारसूर को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
1	महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
2	शिवाजी वार्ड
3	माता दन्तेश्वरी वार्ड
4	अटल वार्ड
5	आजाद चन्द्रशेखर वार्ड
6	महाराणा प्रताप वार्ड
7	स्वामी विवेकानन्द वार्ड
8	भगत सिंह वार्ड
9	गणेश मंदिर वार्ड
10	महात्मा गांधी वार्ड
11	जवाहरलाल नेहरू वार्ड
12	दीनदयाल उपाध्याय वार्ड
13	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
14	शहीद गैदसिंह वार्ड
15	लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

नगर पंचायत बारसूर के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक 01 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

- उत्तर :- मूचनार मार्ग से चलते हुए गणेश मंदिर चौक को लेते हुए अनिल के मकान से अमर सिंह नेगी के मकान तक।
- पूर्व :- अमर सिंह नेगी के मकान से मंगलपोट बस्ती को लेते हुए बासन तराई तालाब को लेते हुए गीदम रोड़ के किनारे-किनारे अलीबहार नाला तक।
- दक्षिण :- अलीबहार नाला के किनारे-किनारे चलते हुए वन विभाग के जंगल तक।
- पश्चिम :- वन विभाग के जंगल से उत्तर की ओर चलते हुए राजाधर बस्ती एवं रुकचंद बस्ती से मूचनार मार्ग तक।

वार्ड क्रमांक 02 शिवाजी वार्ड

- उत्तर :- पीलाराम के मकान से गढ़पारा के किनारे-किनारे पूर्व की ओर चलते हुए समरथपारा के बस्ती को लेते हुए बस्सी के मकान तक।
- पूर्व :- बस्सी के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए बासनतराई तालाब को लेते हुए सुदु के मकान तक।
- दक्षिण :- सुदु के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए वन विभाग के जंगल को लेते हुए कृषि भूमि तक।
- पश्चिम :- कृषि भूमि से बिजमन के मकान को लेते हुए उत्तर की ओर चलते हुए पीलाराम के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 03 माता दन्तेश्वरी वार्ड

- उत्तर :- मूचनार रोड़ जोड़ान से पूर्व की ओर चलते हुए बत्तीसा मंदिर को लेते हुए अटल चौक तक।
- पूर्व :- अटल चौक से दक्षिण की ओर चलते हुए भूपेन्द्र देवांगन के मकान तक।
- दक्षिण :- भूपेन्द्र देवांगन के मकान से कृषि भूमि तक।
- पश्चिम :- कृषि भूमि से उत्तर की ओर चलते हुए मूचनार रोड़ जोड़ान तक।

वार्ड क्रमांक 04 अटल वार्ड

- उत्तर :- बलिहार के मकान से टैमरुभाटा बस्ती से होते हुए कृषि भूमि से पूर्व की ओर चलते हुए बुढ़ा सागर तालाब तक।
- पूर्व :- बुढ़ा सागर तालाब से दन्तेश्वरी मंदिर से दक्षिण की ओर चलते हुए मूचनार रोड़ के किनारे दशरथ के मकान तक।
- दक्षिण :- दशरथ के मकान से मालती के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए मूचनार चौक तक।
- पश्चिम :- मूचनार रोड़ के किनारे-किनारे उत्तर की ओर चलते हुए बलिहार के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 05 आजाद चन्द्रशेखर वार्ड

- उत्तर :- बामदेव पुजारी के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए चंदरलाल के मकान का लेते हुए, बालिका कन्या आश्रम को लेते हुए पुलिस लाईन तक।
- पूर्व :- पुलिस लाईन से बोधघाट रोड़ पीयूष टेलर को लेते हुए दक्षिण की ओर चलते हुए शहीद चौक भूषण गुप्ता के मकान तक।
- दक्षिण :- भूषण गुप्ता के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए बालक आश्रम को लेते हुए नगर पंचायत संग्रहालय को लेते हुए माता दंतेश्वरी मंदिर तक।
- पश्चिम :- माता दंतेश्वरी मंदिर से उत्तर की ओर चलते हुए कुसनू के मकान को लेते हुए बामदेव पुजारी के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 06 महाराणा प्रताप वार्ड

- उत्तर :- जयलाल के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए राधे के मकान को लेते हुए सुरजनाथ बस्ती तक।
- पूर्व :- सुरजनाथ बस्ती से बोधघाट रोड़ से दक्षिण की ओर चलते चमन के मकान को लेते हुए बुढ़ा सागर तालाब तक।
- दक्षिण :- बुढ़ा सागर तालाब से पश्चिम की ओर चलते हुए कवि के मकान को लेते हुए शिव के मकान तक।
- पश्चिम :- शिव के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए जयलाल के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 07 स्वामी विवेकानन्द वार्ड

- उत्तर :- कृषि भूमि से पूर्व की ओर चलते सपुरचंद के मकान को लेते हुए लाल सिंह के मकान तक।
- पूर्व :- लाल सिंह के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए पंचायत भवन एवं सल्फीकोंटा को लेते हुए भुपेन्द्र पुजारी के मकान तक।
- दक्षिण :- भुपेन्द्र पुजारी के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए रंजन के मकान को लेते हुए कृषि भूमि तक।
- पश्चिम :- कृषि भूमि से उत्तर की ओर चलते हुए लक्ष्मी नाथ के मकान को लेते हुए कृषि भूमि तक।

वार्ड क्रमांक 08 भगत सिंह वार्ड

- उत्तर :- ठोठापारा बस्ती से पूर्व की ओर चलते हुए गुमडपोट पहुंच रोड़ के किनारे से सातधार रोड़ तक।
- पूर्व :- सातधार रोड़ से दक्षिण की ओर चलते हुए सोमेश के मकान को लेते हुए कृषि भूमि होते हुए टेमरूभाटा रोड़ तक।
- दक्षिण :- टेमरूभाटा रोड़ से पश्चिम की ओर चलते हुए शंकावती के मकान को लेते हुए बुढ़ा सागर तालाब के केनाल तक।
- पश्चिम :- बुढ़ा सागर तालाब के केनाल से उत्तर की ओर चलते हुए कृषि भूमि की ओर चलते हुए ठोठापारा बस्ती तक।

वार्ड क्रमांक 09 गणेश मंदिर वार्ड

- उत्तर :- जलाराम के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए रघु के मकान तक।
 पूर्व :- रघु के मकान से बोधघाट रोड़ से दक्षिण की ओर चलते हुए मयाराम के मकान तक।
 दक्षिण :- मयाराम के मकान से पश्चिम की ओर टेमरुभाटा रोड़ से चलते हुए कृषि भूमि तक।
 पश्चिम :- कृषि भूमि टेमरुभाटा रोड़ से उत्तर की ओर चलते हुए जलाराम के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 10 महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर :- हितामेटा रोड़ से चलते हुए जंगल तक।
 पूर्व :- जंगल से चलते हुए कृषि भूमि से चित्रकोट रोड़ से महेश्वरी प्रधान के मकान तक।
 दक्षिण :- महेश्वरी प्रधान के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए कृषि भूमि तक।
 पश्चिम :- कृषि भूमि से उत्तर की ओर चलते हुए हितामेटा रोड़ तक।

वार्ड क्रमांक 11 जवाहरलाल नेहरू वार्ड

- उत्तर :- पानी टंकी से पूर्व की ओर चलते हुए हुडकुडी के मकान को लेते हुए कृषि भूमि तक।
 पूर्व :- कृषि भूमि से दक्षिण की ओर चलते हुए जंगल को लेते हुए लंका बहार नाला तक।
 दक्षिण :- लंका बहार नाला से पश्चिम की ओर चलते हुए जंगल को लेते हुए जगरनाथ के मकान तक।
 पश्चिम :- जगरनाथ के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए चितुराम के बस्ती को लेते हुए, रामतराई पारा चालकी पारा को लेते हुए पानी टंकी तक।

वार्ड क्रमांक 12 दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

- उत्तर :- शिक्षक कालोनी से पूर्व की ओर चलते हुए चित्रकूट रोड़ से पावर हाउस को लेते हुए सी.आर.पी.एफ.कालोनी तक।
 पूर्व :- चित्रकूट रोड़ से दक्षिण की ओर चलते हुए सी.आर.पी.एफ. कालोनी के पीछे हिस्सा तक।
 दक्षिण :- सी.आर.पी.एफ.कालोनी के पीछे हिस्सा से पश्चिम की ओर चलते हुए सी.एस. ई.बी. कालोनी तक।
 पश्चिम :- सी.एस.ई.बी.कालोनी से पूर्व की ओर चलते हुए शिक्षक कालोनी तक।

वार्ड क्रमांक 13 डॉ. अम्बेडकर वार्ड

- उत्तर :- बस स्टैंड से पूर्व की ओर चलते हुए भीमा के मकान को लेते हुए गोंडू राम के मकान तक।
- पूर्व :- गोंडू राम के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए ओंकार प्रधान के मकान तक।
- दक्षिण :- ओंकार प्रधान के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए सी.सी.सड़क को लेते हुए गीदम बारसूर रोड़ तक।
- पश्चिम :- गीदम बारसूर रोड़ से उत्तर की ओर चलते हुए शंभु कुषवाहा के मकान को लेते हुए बस स्टैंड तक।

वार्ड क्रमांक 14 शहीद गैदसिंह वार्ड

- उत्तर :- धनीराम के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए योगेन्द्र के मकान को लेते हुए प्रभुनाथ के मकान तक।
- पूर्व :- प्रभुनाथ के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए पहाड़ तक।
- दक्षिण :- पहाड़ से पश्चिम की ओर चलते हुए चरण के मकान को लेते हुए संतोष के मकान को लेते हुए कृषि भूमि तक।
- पश्चिम :- कृषि भूमि से उत्तर की ओर चलते हुए कृषि भूमि को लेते हुए धनीराम के मकान तक।

वार्ड क्रमांक 15 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

- उत्तर :- भोला के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए मंगलू के मकान तक।
- पूर्व :- मंगलू के मकान से देव कुमार मौर्य के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए मुण्डाटिकरा पारा को लेते हुए लंका बहार नाला तक।
- दक्षिण :- लंका बहार नाला से पश्चिम की ओर जंगल पहाड़ को लेते हुए अली बहार नाला तक।
- पश्चिम :- अली बहार नाला से कोसा सेंटर को लेते हुए उत्तर की ओर चलते हुए कुंवरचंद बस्ती को लेते हुए देवचंद के मकान को लेते हुए भोला के मकान तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक-एफ 01-161/2019/18.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 01-161/2019/18 दिनांक 12/07/2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

NOTIFICATION

No. F1-161/2019/18 : In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Barsur, Distt. Dakshin Bastar, Dantewada as per shedule given Below :-

1. Divides Nagar Panchayat Barsur into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

SCHEDULE

S.No.of ward	Name of the ward
1	Maharani Laxmibai Ward
2	Shivaji Ward
3	Mata Danteshwari Ward
4	Atal Ward
5	Aazad Chandrashekhar Ward
6	Maharana Pratap Ward
7	Swami Vivekanand Ward
8	Bhagat Singh Ward
9	Ganesh Mandir Ward
10	Mahatma Gandhi Ward
11	Jawaharlal Nehru Ward
12	Dindayal Upadhyay Ward
13	Dr. Ambedkar Ward
14	Shahid Gaidsingh Ward
15	Lal Bahadur Shastri Ward

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Barsur**Ward No. 01 MAHARANI LAXMIBAI WARD**

- North :- Muchnar road to the Ganesh Temple Chowk through Anil house to Amar singh negi house.
- East :- Going from the house of Amar singh negi, covering Mangalpot Basti and Basan Tarai pond to the Alibahar Canal walking besides Geedam road.
- South :- Going through the borders of Alibahar Canal to the forest of Forest Department.
- West :- Going towards north from Forest of Forest Department covering Rajadhar Basti and Rukchand Basti to Muchnar Road.

Ward No 02 SHIVAJI WARD

- North:- Going to east from the house of Peelaram besides the border of Gadhpura and covering Samrathpara Basti to the house of Bassi.
- East :- Going towards south from the house of Bassi covering Basantarai pond to the house of Sudu.
- South :- From the house of Sudu, going towards west covering the forest of Forest Department to Agricultural Land.
- West :- From the Agricultural Land, going towards north covering the house of Bijman and Peelaram House.

Ward No 03 MATA DANTESHWARI WARD

- North :- Going towards East from the joint of Muchnar road covering Battisa Temple to Atal Chowk.
- East :- Going towards south from Atal Chowk to the house of Bhupendra Dewangan.
- South :- From the house of Bhupendra Dewangan covering at Agricultural Land.
- West :- Going towards north from Agricultural Land to Muchnar road.

Ward No 04 ATAL WARD

- North :- From the house of Balihar covering Temrubhata Basti and an Agricultural Land walking towards east to Budha Sagar Pond.
- East :- From Budha Sagar pond going towards south from Danteshwari Temple walking besides Muchnar road to till the house of Dasrath.
- South :- From the house of Dasrath to going towards north from the house of Malati to Muchnar Chowk.
- West :- From the Muchnar road going towards north of besides to Balihar house.

Ward No 05 AAZAD CHANDRASHEKHAR WARD

- North :- Walking towards east from the house of Bamdev Pujari covering the house of Chandarlal and Balika Kanya Aashram to Police Line.
- East :- From the Police Line covering Bodhghat road Piyush Tailor going towards south to Shaheed Chowk Bhushan Gupta's house.
- South :- Going towards north from the house of Bhushan Gupta covering Balak Aashram and Nagar Panchayat Library to Mata Danteshwari Temple.
- West :- Going towards north from Mata Danteshwari temple covering the house of Kusnoo to Bamdev Pujari's house.

Ward No 06 MAHARANA PRATAP WARD

- North :- Going towards east from the house of Jaylal covering Radhe's house to Surajnath Basti.
- East :- From the Surajnath Basti going towards south from Bodhghat road covering the house of Chaman to Budha Sagar pond.
- South :- Going towards west from Budha Sagar pond covering the house of Kavi to Shiv's house.
- West :- Going towards north from the house of Shiv to Jaylal's house.

Ward No 07 SWAMI VIVEKANAND WARD

- North :- Going towards east from Agricultural Land to covering the house of Sapur Chand to Lal Singh's house.
- East :- Going towards south from the house of Lal Singh covering Panchayat Bhavan and Salphikonta to Bhupendra Pujari's house.
- South :- Going towards west from the house of Bhupendra Pujari covering Rajan's house to Agricultural Land.
- West :- Going towards north from an Agricultural Land covering the house of Laxminath to an Agricultural Land.

Ward No 08 BHAGAT SINGH WARD

- North :- Going towards east from Thothapara Basti walking besides Gumadpot range road to Satdhar Road.
- East :- Going towards south from Satdhar Road covering the house of Somesh and an Agricultural Land to Temrubhata Road.
- South :- Going towards west from Temrubhata Road covering the house of Shankawati to the canal of Budha Sagar pond.
- West :- Going towards north from the Canal of Budha Sagar pond covering an Agricultural Land to Thothapara Basti.

Ward No 09 GANESH MANDIR WARD

- North :- Going towards east from the house of Jalaram to Raghu's house.
- East :- From Raghu's house going towards south covering Bodhghat road to till Mayaram's house.
- South :- Going towards west from house of Mayaram covering Temrubhata Road to an Agricultural Land.
- West :- Going towards north from an Agricultural Land Temrubhata Road to Jalaram's house.

Ward No 10 MAHATMA GANDHI WARD

- North :- Hitameta road to forest.
East :- From forest area covering an Agricultural Land and Chitrakote Road to Maheshwari Pradhan's house.
South :- Going towards west from Maheshwari Pradhan's house to an Agricultural Land.
West :- Going towards north from an Agricultural Land to Hitameta road.

Ward No 11 JAWAHARLAL NEHRU WARD

- North :- Going towards east from Water Tank covering Hudkudi's house to an Agricultural Land.
East :- Going towards south from an Agricultural Land covering the forest to Lanka Bahar Channel.
South :- Going towards west from Lanka Bahar Channel covering the forest to Jagarnath's house.
West :- Going towards north from Jagarnath's house covering Chituram Basti along with Ramtarajpara and Chalkipara to Water Tank.

Ward No 12 DINDAYAL UPADHYAY WARD

- North :- Going towards east from Teachers Colony covering Chitrakote Road and Power House to CRPF Colony.
East :- Going towards south from the Chitrakote Road to till back side area of CRPF Colony.
South :- Going towards west from the back side area of CRPF Colony to till CSEB Colony.
West :- Going towards east from CSEB Colony to till Teachers Colony.

Ward No 13 DR. AMBEDKAR WARD

- North :- Going towards east from the Bus Stand covering Bheema house to till the house of Gonduram.
East :- Going towards south from Gonduram house to till the house of Omkar Pradhan.
South :- Going towards west from Omkar Pradhan house covering CC Road to till Barsoor Geedam Road.
West :- Going towards north from Geedam Barsoor road covering Shambhu Khushwah house to Bus Stand.

Ward No 14 SHAHID GAIND SINGH WARD

- North :- Going towards east from Dhaniram's house covering Yogendra's house to till Prabhunath's house.
- East :- Going towards south from Prabhunath's house to till the mountain.
- South :- Going towards west from the mountain covering Charan's house and Santosh's house to till an agricultural land.
- West :- Going towards north from an agricultural land covering an agricultural land to till Dhaniram's house.

Ward No 15 LAL BAHADUR SHASTRI WARD

- North :- Going towards east from Bhola's house to till the house of Manglu.
- East :- Going towards south from Manglu's house and Dev Kumar Mourya's house covering Mundatikrapara to till Lanka Bahar Channel.
- South :- Going towards west from Lanka Bahar Channel covering the forest mountain to till Ali Bahar Channel.
- West :- Going towards north from Ali Bahar Channel covering Kosa Centre along with Kuwarchand Basti and Devchand's house to till Bhola's house.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R.EKKA, Deputy Secretary.